

# Psychopathology of everyday life

16 दैनिक जीवन की छोटी-छोटी गलतियाँ Wednesday

अज्ञान या लचीलेपन नहीं होती अपितु वे उद्देशपूर्ण होती हैं। निश्चयना करे।

Freud ने अपनी पुस्तक 'Psychopathology of everyday life' में दैनिक जीवन में होने वाली सभी गलतियों या त्रुटियों को उद्देश्यपूर्ण बताया है। वह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक है। इन त्रुटियों का कारण व्यक्ति के अचेतन मन में होता है। Freud का मत है कि व्यक्ति के सामान्य जीवन में होने वाली इन गलतियों को अचेतन में दमित विचारों का अत्यंत सूक्ष्म और अविश्वसनीय रूप में अभिव्यक्ति होती है। इसलिए इन सामान्य त्रुटियों द्वारा अचेतन की दमित इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इन त्रुटियों को आधुनिक

मैनिंग संबंधों का लागू करना भी आसानी से हो जाता है। Freud ने इसे लज्जाली माना है। दैनिक जीवन का कुछ महत्त्वपूर्ण सामान्य त्रुटियों को शामिल किया है।

1. **विसर्गों का भूलना (forgetting of names)**  
किसी परिचित व्यक्ति या स्थान का नाम भूलना सामान्य दैनिक जीवन की सामान्य घटना है। इस प्रकार त्रुटियों का एक महत्वपूर्ण कारण धरना समझाते हैं। कुछ प्रकार के दैनिक त्रुटियों का विशेष महत्त्वपूर्ण कारण था। साक्षात्कार लक्षण से आता है। ध्यान (जित जागो) को अचेतन के पीछे लाने का एक कारण होता है। इसके अलावा विचार विहीनता को व्यक्ति का कारण बनता नहीं जाता। Freud ने इन त्रुटियों में यह बताया कि इन त्रुटियों के कारणों का कारण अचेतन में दमित, अत्यंत या अत्यंत उद्देश्यपूर्ण अथवा आत्मिक त्रुटियों का अनुकूल संस्कार होता है।